

## सर्जरी प्रश्नावली/Surgery Questionnaire/外科問診票

मरीज का नाम /Name of patient /患者氏名				BT=	°C
जन्म की तारीख /Date of birth /生年月日(西暦)	वर्ष /Year/ 年	महीना /Month/ 月	दिन /Day/ 日	PR=	मि./min./分 エマズエバツリ
	(	आयु/Years old/ 歳)	)	BP=	/mmHg
ऊंचाई/वज़न/Height/Weight/身長・体重	cm	kg		RR=	मि./min./分 %
एलर्जी /Allergies/アレルギーの有無	<input type="checkbox"/> भोजन/Food(s)/食べ物: <input type="checkbox"/> दवा/Medicine/薬:			SPO2=	<input type="checkbox"/> पुरुष/Male/男性 <input type="checkbox"/> महिला/Female/女性

आज समस्या क्या है? (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं!)/What is the problem today?(Check all that apply.)  
/今日はどうな症状がありますか。(複数ある方は複数回してください。)


- |                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                        |                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| □ सूजन/Swelling/腫脹                                                                                                                                                                                    | □ दर्द/Pain/痛み                    | □ पिण्ड/Lump/しこり                                       | □ दुखार<br>/Fever/発熱   | □ बवासीर/Hemorrhoid/痔  | □ कब्ज़<br>/Constipation/便秘 |
| मल में खून<br>/Blood in stool<br>/便に血が混じる                                                                                                                                                             | वजन घटना<br>/Weight loss<br>/体重減少 | भूख में कमी<br>/Loss of appetite<br>/食欲がない             | दस्त<br>/Diarrhea/下痢   | उबकार्द<br>/Nausea/吐き気 | बमन/Vomiting/嘔吐             |
| गोच<br>/Sprain/ねんざ                                                                                                                                                                                    | चोट/Injury<br>/怪我                 | खाने में अक्षय<br>/Food stuck in throat<br>/食事がのどにつかえる | अन्य/Other(s)<br>/その他: |                        |                             |
| मुझे किंवा अन्य क्लिनिक/अस्पताल ने (या नियमित जांच के दौरान) हमां आने की सलाह दी थी।<br>/I was advised by another clinic/hospital (or at a regular check-up) to come here./他の医療機関から受診するように勧められた(健診含む) |                                   |                                                        |                        |                        |                             |

आपके मल पर लागू होने वाली सभी बातों पर निशान लगाएं!/Check all that apply about your stool.  
/便の性状に図してください。

- |                                       |                  |                 |                           |                                                                                             |               |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| □ भूरा सफेद<br>/Greyish white<br>/灰白色 | □ भूरा/Brown/茶色  | □ काला/Black/黒色 | □ रक्तरंजित<br>/Bloody/血便 | □ पीला/Watery/水様                                                                            | □ नरम/Soft/軟便 |
| सामान्य/Normal/普通                     | ठोस/Hard<br>/硬い便 |                 |                           | *प्रति दिन मल आवृत्ति _____ प्रति दिन<br>/Stool frequency per day/一日の排便回数: /time(s)/day/回/日 |               |

अपने लक्षणों का वर्णन करें./Describe your symptoms.  
/症状についてご質問します。

उस स्थान पर गोला बनाएं जहां आपको लक्षण महसूस हो रहा है।  
/Circle the place where you are experiencing the symptom.  
/症状のある部分に○を付けて下さい。




लक्षण कब उत्पन्न होता है?/When does the symptom occur?  
/症状はどのようなときに現れますか。

- |                                    |                               |                        |                                         |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| □ सुबह<br>/Morning/朝               | □ दिन का समय<br>/Daytime/昼    | □ शाम/Evening/夕方       | बिस्तर पर रहते<br>/While in bed<br>/就寝中 |
| जगते समय/When<br>waking up<br>/起床時 | अनियमित<br>/Irregular<br>/不定期 | अन्य/Other(s)<br>/その他: |                                         |

लक्षण कैसा है?/What is the symptom like?  
/症状はどのような性質を持っていますか。

- |                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| □ स्थिर/Constant/絶え間なく、続いている                                                    | लक्षण आता है और चला जाता है/The symptom comes and goes<br>/症状が出たり消したりしている |
| लक्षण धीरे-धीरे बिगड़ रहा है/The symptom is gradually worsening<br>/徐々にひどくなっている |                                                                           |
| अन्य/Other(s)/その他:                                                              |                                                                           |

यदि आप 1 - 10 के पैमाने पर लक्षण का वर्णन करते हैं, तो यह कितना गंभीर है? नीचे दिए गए नंबर पर गोला लगाएं。  
/If you describe the symptom on a scale of 1 - 10, how severe is it? Circle the number below.  
/その症状の程度を数字で表すと、どのくらいですか? 下の数字のところに○を付けてください。



लक्षण कब शुरू हुआ?/When did the symptom start?  
/この症状はいつからありますか。

वर्ष  
/Year  
/年      महीना  
/Month  
/月      दिन  
/Day  
/日  
 तारीख इससे/From about \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ पूर्वाहा/am/午前・午後      एवं वार्षिक/pm/午後・午後

क्या आप वर्तमान में विटामिन और पोषण संबंधी अनुपूरक सहित कोई दवा ले रहे हैं?  
/Are you currently on any medication, including vitamin and nutritional supplement?  
/現在、飲んでる薬はありますか? ※ビタミン、栄養剤、サプリメントも含みます。

- |                   |                  |                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ नहीं/No<br>/いいえ | □ हाँ/Yes<br>/はい | *हमें अपनी दवा या दवा का रिकॉर्ड (नोटबुक) दिखाएं।<br>/Show us your medication or medication record (notebook).<br>/お薬、もしくは「お薬手帳」を持っている方は、見せてください。 |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

	ओषधियों का नाम /Name of medications /お薬の名前	अपनी दवा कैसे ले या उपयोग करें /How to take or use your medication /飲み方・使い方		ओषधियों का नाम /Name of medications /お薬の名前	अपनी दवा कैसे ले या उपयोग करें /How to take or use your medication /飲み方・使い方
①			(6)		
②			(7)		
③			(8)		
④			(9)		
⑤			(10)		

क्या आप पहले किसी डॉक्टर की देखरेख में रहे हैं या रहे हैं?/Are you, or have you been, under the care of a doctor in the past?  
/現在治療している病気、または過去に治療していたことはありますか？

नहीं/No  
/いいえ       हाँ/Yes  
/はい

यदि आपने "हाँ" चेक किया है, तो सूची से स्थिति चुनें, और उस अस्पताल का नाम लिखें जहाँ आपने उपचार प्राप्त किया था।  
/If you checked "Yes", choose the condition from the list, and write the name of the hospital where you received treatment.  
/「はい」に印した人は、疾患名リストから選択し、治療していた医療機関名を書いてください。

रोग का नाम (निम्नलिखित सूची में से संख्या लिखें /Name of disease (Write the number from the following list) /疾患名（下記リスト番号可）		उपचार की प्रगति/Treatment progress /治療経過	अस्पताल का नाम/Hospital name /医療機関名
		<input type="checkbox"/> बरामद/Recovered/治癒 उपचार वापस लेना /Withdrawal of treatment/治療中断	<input type="checkbox"/> उपचार के अंतर्गत/Under treatment/現在治療中 अनुपचारित/Untreated/未治療
		<input type="checkbox"/> बरामद/Recovered/治癒 उपचार वापस लेना /Withdrawal of treatment/治療中断	<input type="checkbox"/> उपचार के अंतर्गत/Under treatment/現在治療中 अनुपचारित/Untreated/未治療
		<input type="checkbox"/> बरामद/Recovered/治癒 उपचार वापस लेना /Withdrawal of treatment/治療中断	<input type="checkbox"/> उपचार के अंतर्गत/Under treatment/現在治療中 अनुपचारित/Untreated/未治療
		<input type="checkbox"/> बरामद/Recovered/治癒 उपचार वापस लेना /Withdrawal of treatment/治療中断	<input type="checkbox"/> उपचार के अंतर्गत/Under treatment/現在治療中 अनुपचारित/Untreated/未治療

<रोगों की सूची/List of diseases/疾患リスト>

रोग की प्रणाली /System of disease /疾患の系統		रोग के नाम /Disease names /疾患名				
①	पाचन रोग /Digestive disease /消化器系の疾患	a. पेटिक छाला /Peptic ulcer /消化器潰瘍	b. हेपेटाइटिस /Hepatitis /肝炎	c. हेपेटिक सिरोसिस /Hepatic cirrhosis /肝硬変	d. अन्य/Others/その他	
②	परिसंचरण तंत्र रोग /Circulatory system disease /循環器系の疾患	a. उच्च रक्तचाप /Hypertension/高血圧	b. एंजाइना पेटरेस /एंडोपेशीय रोधालन /Angina pectoris /myocardial infarction /狭心症・心筋梗塞	c. अंताला /Arrhythmia /不整脈	d. दिल की धड़कन रुकना /Heart failure/心不全	e. अन्य/Others/その他
③	श्वसन संबंधी रोग /Respiratory disease /呼吸器系の疾患	a. दमा/Asthma/喘息	b. लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट /Chronic obstructive pulmonary disease /慢性閉塞性肺疾患	c. न्यूमोनिया /Pneumonia /肺炎	d. फेफड़े का क्षयरोग /Pulmonary tuberculosis /肺結核	e. अन्य/Others/その他
④	गुर्दे और मूत्र संबंधी रोग /Kidney and urological disease /腎・泌尿器系の疾患	a. विरकारिक गुर्दा निष्क्रियता /Chronic renal failure /慢性腎不全	b. गुर्दा/मूत्र पथरी /Renal/urinary stone /腎・尿管結石	c. मूत्र पथ के संक्रमण /Urinary tract infection /尿路感染症	d. अन्य/Others/その他	
⑤	मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के रोग /Brain and nervous system disease /脳・神経系の疾患	a. मस्तिष्क रोधगलन /Cerebral infarction /脳梗塞	b. मस्तिष्कीय रक्तसाव /Cerebral hemorrhage /脳出血	c. एपिली /Epilepsy /てんかん	d. अन्य/Others/その他	
⑥	अंतःस्रावी या चायापचय रोग /Endocrine or metabolic disease /内分泌代謝系の疾患	a. मधुमेह /Diabetes mellitus /糖尿病	b. हाइपरलाइपिडिमिया /Hyperlipidemia /高脂血症	c. थायरोइड ग्रंथि की खराबी /Thyroid gland malfunction /甲状腺機能障害	d. हाइपरूरिसीमिया /Hyperuricemia /高尿酸血症	e. अन्य/Others/その他
⑦	हड्डी या मांसपेशियों का रोग /Bone or muscle disease /骨・筋肉の疾患	a. रूमेटाइड गठिया /Rheumatoid arthritis /関節リウマチ	b. ऑस्टियोपोरोसिस /Osteoporosis /骨粗鬆症	c. पुराने ऑस्टियोआर्थ्राइटिस /Osteoarthritis /変形性膝関節症	d. हर्नियेटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्स /Herniated intervertebral discs /椎間板ヘルニア	e. गाउट/Gout/痛風
⑧	प्रसूति एवं स्त्री रोग /Obstetrics and gynecology disease /産婦人科の疾患	a. गर्भाशय फाइब्रोइड /Uterine fibroids /子宮筋腫	b. कष्टर्तव /Dysmenorrhea /月経困難症	c. बांझपन /Infertility/不妊症	d. अन्य/Others/その他	
⑨	नेत्र रोग /Eye disease/眼の疾患	a. मोतियाबिंद/ Cataract/白内障	b. अंख का रोग /Glaucoma/緑内障	c. रेटिनोपैथी /Retinopathy/網膜症	d. अन्य/Others/その他	
⑩	मैलिनैट ट्यूमर /Malignant tumor /悪性腫瘍	a. आमाशय का कैंसर /Stomach cancer/胃がん	b. पेट का कैंसर /Colon cancer/大腸がん	c. लिंगर पित्ताशय/अग्राशय का कैंसर /Liver/gallbladder/pancreatic cancer /肝臓・胆のう・脾臓がん	d. स्तन कैंसर /Breast cancer/乳がん	e. गर्भाशय कर्क रोग /Uterine cancer /子宮がん
		f. फेफड़े का कैंसर /Lung cancer/肺癌	g. अन्य/Others/その他			
⑪	मानसिक रोग /Mental disease /精神の疾患	a. अवसाद /Depression/うつ病	b. विखंडितमनसकताग्रस्त /Schizophrenia /統合失調症	c. अन्य/Others/その他		
⑫	ईएनटी रोग /ENT disease /耳鼻喉科の疾患	a. बिंगड़ी सुनवाई /Impaired hearing/難聴	b. चक्कर आना /Dizziness/めまい	c. कान का शोर /Ear noise/耳鳴	d. परग से एलर्जी /Pollen allergy/花粉症	e. अन्य/Others/その他
⑬	रक्त रोग /Blood disease /血液の疾患	a. रक्तात्पत्ता /Anemia/貧血	b. लेकिमिया /Leukemia/白血病	c. अन्य/Others/その他		
⑭	त्वचा रोग /Skin disease /皮膚の疾患	a. एटोपिक डर्मैटिस /Atopic dermatitis /アトピー性皮膚炎	b. टीनिया (एथलीट फुट) /Tinea (athlete's foot) /白癬症 (水虫)	c. अन्य/Others/その他		

**क्या आपने कभी सर्जरी करवाई है?/Have you ever had surgery?  
/今までに手術をしたことがありますか。**

नहीं/No  
/いいえ       हाँ/Yes  
/はい

यदि आपने "हाँ" पर टिक लगाया है, तो अपनी सर्जरी का इतिहास लिखें।  
/If you checked "Yes", write the history of your surgery. 「はい」に☑した方は下に手術歴を書いてください。

रोग के नाम/Disease names /疾患名	आपकी सर्जरी का नाम /Name of your surgery/手術名	जब आपकी सर्जरी हुई थी /When you had the surgery /手術をした時期	अस्पताल जहां आपकी सर्जरी हुई थी /Hospital where you had the surgery /手術をした医療機関

\*यदि आप सर्जरी की सही तारीख के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो वर्ष या उम्र लिखें।

/If you are not sure about the exact date of the surgery, write the year or age.

/※詳しい手術日がわからない場合は「年齢」、「手術した年」でも構いません。

**क्या आप नियमित रूप से धूम्रपान करते हैं?/Do you smoke regularly?  
/習慣的に、たばこを吸いますか。**

नहीं/No  
/いいえ       हाँ/Yes  
/はい       धूम्रपान करता था/Used to smoke  
/以前吸っていた

सिगरेट का सेवन /Cigarette consumption/喫煙量	धूम्रपान की अवधि/Duration of smoking /喫煙期間	वह वर्ष जब आपने धूम्रपान बंद किया /Year when you stopped smoking /喫煙をやめた年
_____ सिगरेट/दिन cigarettes/Day 本/日	_____ वर्ष/Year/年	_____ वर्ष/Year/年 _____ महीना/Month/月

\*यदि आपको अभी भी धूम्रपान की आदत है, तो जिस वर्ष आपने धूम्रपान छोड़ा था, उस वर्ष के बारे में प्रश्न में एक खाली छोड़ दें।

/If you still have a smoking habit, leave a blank in the question about the year you stopped smoking.

/現在も喫煙を続けている方は、喫煙をやめた年は空欄のままにしておいてください。

**क्या आप नियमित रूप से पीते हैं?/Do you drink regularly?  
/習慣的にお酒を飲みますか。**

नहीं/No  
/いいえ       हाँ/Yes  
/はい       नियमित रूप से शराब पीता था/Used to drink regularly  
/以前飲酒する習慣があった。

<input type="checkbox"/> बियर/Beer/ビール	_____ एमएल/दिन/ml/Day/日	<input type="checkbox"/> विस्की/Whisky/ウイスキー	_____ एमएल/दिन/ml/Day/日
<input type="checkbox"/> जापानीज साके	_____ एमएल/दिन/ml/Day/日	<input type="checkbox"/> वाइन/Wine/ワイン	_____ एमएल/दिन/ml/Day/日
<input type="checkbox"/> अन्य/Other(s)/その他	_____ एमएल/दिन/ml/Day/日		

यदि महिला है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या आप गर्भवती हैं, या संभवतः गर्भवती हैं?

/If female, answer the questions below. Are you pregnant, or possibly pregnant?

/女性の方のみお答えください。妊娠していますか、またその可能性はありますか。

नहीं/No  
/いいえ       हाँ/Yes  
/はい       नहीं जानती/Do not know/わからない

**क्या आप स्तनपान करा रही हैं?/Are you breastfeeding?  
/現在、授乳中ですか。**

नहीं/No  
/いいえ       हाँ/Yes  
/はい

यदि परामर्श के संबंध में आपका कोई विशेष अनुरोध है, तो बॉक्स को चेक करें।

/If you have a special request concerning the consultation, check the box.

/診察でのご希望がある場合は、☑をしてください。

मैं अपने अनुमानित चिकित्सा खर्चों के बारे में पहले से सूचित होना चाहता हूँ।  
/I want to be informed of my estimated medical expenses in advance. /あらかじめ、医療費の概算を教えてほしい。

यदि दुभाषिया सेवा उपलब्ध है तो मैं एक दुभाषिया रखना चाहता हूँ।  
/I want to have an interpreter if an interpreter service is available./通訳がある場合は、通訳を付けてほしい。

अन्य/Other(s)/その他 :